

प्रेस नोट दिनांक 14-11-2021

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से मु0अ0सं0 461/21 धारा 379 भादवि मे चोरी गये 45,000/- (पैंतालीस हजार) रूपये व घटना मे

प्रयुक्त मो0सा0 व अवैध असलहा/कारतूस बरामद:-

अवगत कराना हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में चोरो के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13-11-2021 को थाना नकुड़ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस मुठभेड़ के दौरान अध्याना रोड पर कब्रिस्तान के पास से एक चोर जोनी पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम इब्राहिमी थाना सरसावा जिला सहारनपुर को मय मु0अ0सं0 461/21 धारा 379 भादवि मे चोरी गये 45,000/- (पैंतालीस हजार) रूपये व चोरी की घटना मे प्रयुक्त मो0सा0 CD 100 लाल रंग नं0 HR 05 C 7927 व 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 01 खोका कारतूस सहित समय 17.10 बजे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई हैं। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के चोर हैं, जिनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही हैं। गिरफ्तारी एवं बरामदगी एवं पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर 476/2021 धारा 307 भादवि व मु0अ0सं0 477/2021 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1- जोनी पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम इब्राहिमी थाना सरसावा जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

1-45,000/- (पैंतालीस हजार) रूपये

2- मो0सा0 CD 100 लाल रंग नं0 HR 05 C 7927

3- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 01 खोका कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1- प्र0नि0 एच.एन. सिंह

2- उ0नि0 अनिल कुमार

3- उ0नि0 सतीश कुमार

4- है0का0 569 नीरज कुमार

5- का0 1582 सन्नी राणा

6- का0 1369 प्रशान्त कुमार

प्रेस नोट दिनांक 14-11-2021

थाना गंगोह पुलिस द्वारा स्मैक सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 14-11-2021 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा ग्राम बाढी माजरा से अभि० जुल्फकार उर्फ छोटा पुत्र शब्बीर निवासी सलारपुर थाना गंगोह, सहारनपुर को 10 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु०अ०सं० 548/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 14-11-2021 को थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा जनता रोड़ से अभि० प्रदीप पुत्र भोपाल सिंह निवासी गोल्ड फलेक स्कूल वाली गली पुष्पाजंली बिहार थाना जनकपुरी, सहारनपुर को 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु०अ०सं० 320/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

सोशल मीडिया सेल
सहारनपुर।